



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 3 राँची, बुधवार 3 माघ, 1940 (श०)
23 जनवरी, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 45- 61

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1—क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1—ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9—क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9—ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2018 ई.।

संख्या-13/पी1-209/2003 (खण्ड)-7105/सी०,-- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा के पदों को चिन्हित किया गया है। उक्त अधिसूचना में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण, झारखण्ड का पद सन्निहित है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य पुलिस के सुदृढीकरण हेतु राज्य/ केन्द्र सरकार की विभिन्न पुलिस आधुनिकीकरण की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीकृत रूप से समयबद्ध एवं कारगर कार्यान्वयन की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार के सम्यक् विचारोपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण, झारखण्ड के पद को अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आधुनिकीकरण, झारखण्ड के रूप में पदनामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2018 ई.।

संख्या-14/ए.-1030/2013-7153-- श्री मनोरंजन प्रसाद, तत्कालीन थाना प्रभारी, बी.एस. सिटी, बोकारो सम्प्रति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-6561, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री प्रसाद द्वारा उक्त निर्धारित दण्ड के विरुद्ध माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील आवेदन समर्पित किया गया।

3. श्री प्रसाद द्वारा आरोपों के खण्डन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अथवा साक्ष्य धारित नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 57 (5) के अन्तर्गत दायर अपील आवेदन के निष्पादन के निमित्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4047, दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 एवं संकल्प संख्या-3224, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में वर्णित मार्गदर्शन के आलोक में अपील को सक्षम प्राधिकार के समक्ष लाया गया।

4. सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-6561, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा संसूचित दण्ड को अपरिवर्तित रखते हुए अपील आवेदन का निस्तार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश चन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-10/विविध-1011/2018 (खण्ड-I)- 7175-- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक 07 मई, 2012 द्वारा निर्णय लिया गया था।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग से प्राप्त प्रथम एवं तृतीय संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक 10 अगस्त, 2015, अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक 22 सितम्बर, 2017** द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3. उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के नाम एवं पता में सुधार संबंधी प्रतिवेदन आयोग के पत्रांक-2303, दिनांक 14 जून, 2018 एवं पत्रांक-2445, दिनांक 23 अगस्त, 2018 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न विवरणी के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के नाम एवं पता में सुधार संबंधी पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक 01 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगा।

अनु.-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियस कुल्लू,
सरकार के अवर सचिव।

**झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।**

विवरणी

क्र. सं.	नाम एवं पता	अधि. सं./दिनांक	परिवर्तन का आधार	परिवर्तित नाम एवं पता
1	श्री रीगन रजवार पिता-मंगरू रजवार, ग्राम-हेमन्तपुर (नीचे टोला) पो.-हजारीबाग थाना+प्रखण्ड-हजारीबाग जिला-हजारीबाग।	4920/ 10.08.2015	आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन	श्री टीगन रजवार पिता-मंगरू रजवार, ग्राम-हेमन्तपुर (नीचे टोला) पो.-सोसोकला थाना+प्रखण्ड-गोला जिला-रामगढ़।
2	श्री सालखु टुडू, पिता-श्री मान सिंह टुडू, ग्राम-धोबोनी (लाइनडीह) पो.+प्रखण्ड+थाना-मुसाबनी।	5275/ 22.09.2017	आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन	श्री सालखु बेसरा, पिता-स्व. मान सिंह बेसरा, ग्राम-धोबोनी, टोला-लाईनडी, पो.+थाना-मुसाबनी, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

**इग्नातियुस कुल्लू,
सरकार के अवर सचिव।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-14/आ०-112/2018-7196-- मो० अर्शी, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभागीय ज्ञापन संख्या-5597, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 के परिशिष्ट-‘क’ के आधार पर यह आरोप गठित किया गया कि, दिनांक 30 अप्रैल, 2018 को रंका मोड़, गढ़वा के समीप रोड जाम हटाने के क्रम में मो० अर्शी, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक एवं स्काट पार्टी द्वारा श्री आशीष दुबे, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, गढ़वा के साथ मारपीट की घटना घटित हुई। उक्त घटना से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा का अपने कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-3 (1) एवं 3 (2) का उल्लंघन है।

2. उपरोक्त आरोप की जाँच के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-5717, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के तहत विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक-171/अभियान (गो०), दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मो० अर्शी, भा०पु०से० के विरुद्ध अधिरोपित आरोप अप्रमाणित पाया गया है।

अतः सरकार के सम्यक् विचारोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए मो० अर्शी, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गढ़वा सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, अभियान (नक्सल), पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7278/सी.,-- श्रीमती तदाशा मिश्र, भा.पु.से. (1994), विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार - पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची) को भारतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक {वेतनमान- Level-15 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान रु. 67,000-79,000)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती मिश्र अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगी।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7279/सी.,-- श्री सुधीर कुमार झा, भा.पु.से. (2001), प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक {वेतनमान- Level-14 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान - रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-10,000)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7280/सी.,-- श्री रणजीत कुमार प्रसाद, भा.पु.से. (2001), प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक (संगठित अपराध), अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार - दुमका प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि-व्यवस्था, अपराध एवं कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों के निष्पादन का प्रभार) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक {वेतनमान- Level-14 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान - रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-10,000)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले

आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (संगठित अपराध), अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त दुमका प्रक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि-व्यवस्था, अपराध एवं कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों का निष्पादन करेंगे।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7281/सी.,-- श्री कुलदीप द्विवेदी, भा.पु.से. (2005), प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक {वेतनमान-Level- 13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7282/सी.,-- श्री पंकज कम्बोज, भा.पु.से. (2005), प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग (अतिरिक्त प्रभार - प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक {वेतनमान-Level- 13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कम्बोज अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7283/सी.,-- श्री असीम विक्रान्त मिंज, भा.पु.से. (2005), प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपमहानिरीक्षक {वेतनमान-Level- 13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7284/सी.,-- श्री देवेन्द्र ठाकुर, भा.पु.से. (2005), प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार - प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक {वेतनमान- Level- 13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित

वेतनमान - रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री ठाकुर अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7285/सी.,-- श्री राजकुमार लकड़ा, भा.पु.से. (2005), प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपमहानिरीक्षक {वेतनमान-Level-13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7286/सी., भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level-13 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान - रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700) में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	बैच	तिथि
1	श्री क्रांति कुमार गडिदेसी, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची।	2006	01.01.2019
2	श्रीमती अन्नेपु विजयालक्ष्मी, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।	2006	01.01.2019
3	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, देवघर।	2006	01.01.2019
4	श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा।	2006	01.01.2019
5	श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची।	2006	01.01.2019

II. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**28 दिसम्बर, 2018 ई.।**

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7287/सी.,-- श्री राजीव रंजन सिंह, भा.पु.से. (2006), पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level- 13 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700) में दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

II. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

III. MCTP, Phase-III के अगले सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में श्री सिंह पूर्व धारित Junior Administrative Grade के वेतनमान में स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7288/सी.,-- श्री मनोज कौशिक, भा.पु.से. (2001), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-5 (बी) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक {वेतनमान- Level- 14 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे-10,000)} की कोटि में इनसे कनीय श्री सुधीर कुमार झा, भा.पु.से. (2001) को विभागीय अधिसूचना सं.-7279, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

MCTP, Phase-IV के अगले सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में श्री कौशिक पूर्व धारित पुलिस उपमहानिरीक्षक की कोटि में स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7289/सी.,-- श्री अनुप टी. मैथ्यू, भा.पु.से. (2006), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-5 (बी) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level- 13 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700) में इनसे कनीय श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा.पु.से. (2006) को विभागीय अधिसूचना सं.-7286, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

MCTP, Phase-III के अगले सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में श्री मैथ्यू पूर्व धारित Junior Administrative Grade के वेतनमान में स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2018 ई।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7290/सी.,-- श्री अभिषेक, भा.पु.से. (2005), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-5 (बी) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप महानिरीक्षक {वेतनमान-Level- 13A of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान-रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900)} की कोटि में इनसे कनीय श्री असीम विक्रान्त मिंज, भा.पु.से. (2005) को विभागीय अधिसूचना सं.- 7283, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या-13/पी.2-102/2016- 7291/सी.,-- डा. माईकल राज एस., भा.पु.से. (2006), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-5 (बी) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level- 13 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान - रू. 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700) में इनसे कनीय श्री क्रांति कुमार गडिदेसी, भा.पु.से. (2006) को विभागीय अधिसूचना सं.- 7286, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2018 ई.।

संख्या- 12/एल.-1004/2018-7299-- श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, झा.स.पु.- 07, हजारीबाग को उनकी पुत्री की शादी के लिए दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 से 14 फरवरी, 2019 तक कुल 62 (बासठ) दिनों का सेवा संहिता के नियम- 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवधि में श्री सिंह कोटि वेतन प्राप्त करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

15 जनवरी, 2019

संख्या-01 स्था० 18/2017- 144 वि०स०-- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में अधिक संख्या में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु लिए गये निर्णय के आलोक में श्री नंदलाल प्रसाद, उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची (E-mail-nandlalprasad275@gmail.com - Mo.No.- 9431502927) को VOTER AWARENESS FORUM(VAF) की स्थापना हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है ।

मा० अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के आदेश से,

नवीन कुमार,

उप सचिव,

झारखंड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी, 2019

संख्या-4/नि०स०-12-39/2017-118 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री अशोक राम (पंचम बैच, गृह जिला- हजारीबाग) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	ASHOK RAM- (110094835626)	DC OFFICE KODERMA	<u>KODERMA</u> <u>SADAR</u> <u>CIRCLE</u> <u>.KODERMA</u> Circle Officer	17/06/2016	17/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव
जीपीएफ संख्या:PTS/FD/1139

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग-----
अधिसूचना**10 जनवरी, 2019**

संख्या-1/विविध-833/08 का. - 211 -- श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (झा:2006), नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को स्वीकृत छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा उपभोग हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से 03 जनवरी, 2019 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी थी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ही अवकाश का उपभोग कर दिनांक 01 जनवरी, 2019 को योगदान कर लिया गया है।

अतः दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 03 जनवरी, 2019 तक के स्वीकृत उपार्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।